

(ख) द्विपक्षीय और एकतरफा कर संधि का संक्षेप में वर्णन करें।

(9)

3. (क) आर्म्स लेंथ प्राइस की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए और इसके निर्धारण के लिए प्रयुक्त विभिन्न विधियों पर चर्चा कीजिए।

(9)

(ख) BEPS कार्य योजना 13 द्वारा अनिवार्य ट्रांसफर प्राइसिंग प्रलेखन की त्रिस्तरीय संरचना का वर्णन कीजिए।

(9)

4. (क) आर्थिक विकास में कॉर्पोरेट करों की भूमिका और महत्व पर विस्तार से चर्चा कीजिए।

(9)

(ख) कर दर में कमी और आधार विस्तार सहित कॉर्पोरेट कराधान में वैश्विक रुझानों का विश्लेषण कीजिए।

(9)

या

(क) डिजिटलीकरण के जवाब में अंतरराष्ट्रीय प्रत्यक्ष कराधान नियमों में सुधारों को स्पष्ट कीजिए।

(9)

(ख) ई-कॉमर्स और डिजिटल व्यवसायों द्वारा उत्पन्न कराधान चुनौतियों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

(9)

5. निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए: (9×2)

(क) OECD मॉडल और UN मॉडल सम्मेलनों के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए।

(ख) भारत-मॉरीशस संधि में पूंजीगत लाभ से संबंधित प्रावधानों पर चर्चा कीजिए।

(ग) ओईसीडी की 5 बीईपीएस कार्य योजनाओं के नाम बताइए।

(3500)

[This question paper contains 4 printed pages.]

Your Roll No.....

Sr. No. of Question Paper : 132

L

Unique Paper Code : 2413080040

Name of the Paper : International Taxation

Name of the Course : **B.Com. (H) - DSE**

Semester : VIII

Duration : 3 Hours

Maximum Marks : 90

समय : 3 घण्टे

पूर्णांक : 90

Instructions for Candidates

1. Write your Roll No. on the top immediately on receipt of this question paper.
2. Attempt **all** questions.
3. **All** questions carry equal marks.
4. Answers may be written either in English or Hindi; but the same medium should be used throughout the paper.

छात्रों के लिए निर्देश

1. इस प्रश्न-पत्र के मिलते ही ऊपर दिए गए निर्धारित स्थान पर अपना अनुक्रमांक लिखिए।
2. **सभी** प्रश्नों के उत्तर दें।
3. **सभी** प्रश्नों के अंक समान हैं।
4. इस प्रश्न-पत्र का उत्तर अंग्रेजी या हिंदी किसी एक भाषा में दीजिए, लेकिन सभी उत्तरों का माध्यम एक ही होना चाहिए।

P.T.O.

1. (a) Define International Taxation? Explain the need and principles of international taxation. (18)

OR

- (a) Discuss the source rule and residence rule of international taxation. (9)
- (b) Write short note :
 (i) Advance ruling
 (ii) Tax evasion (9)
2. (a) Discuss the different methods adopted by countries to alleviate international double taxation. (18)

OR

- (a) Explain the term 'Permanent Establishment' and examine its significance when such transaction is governed by double taxation avoidance agreements? (9)
- (b) Briefly elaborate the Bilateral and Unilateral tax treaty? (9)
3. (a) Explain the concept of Arm's Length Price and discuss the various methods used for its determination. (9)
- (b) Describe the three tier structure for transfer pricing documentation mandated by BEPS Action Plan 13. (9)
4. (a) Discuss in detail the role and importance of corporate taxes in economic development. (9)
- (b) Analyze the global trends in corporate taxation, including tax rate reductions and base broadening. (9)

OR

- (a) Explain the reforms in international direct taxation rules in response to digitalization. (9)
- (b) Critically examine the taxation challenges posed by e-commerce and digital businesses. (9)
5. Attempt **any 2** of the following : (9×2)
- (a) Differentiate between OECD model and UN model conventions.
- (b) Discuss the provisions relating to capital gains in India-Mauritius treaty
- (c) Name 5 BEPS action plans of OECD.

1. (क) अंतर्राष्ट्रीय कराधान को परिभाषित करें? अंतर्राष्ट्रीय कराधान की आवश्यकता और सिद्धांतों की व्याख्या करें। (18)

या

- (ख) अंतर्राष्ट्रीय कराधान के स्रोत नियम और निवास नियम पर चर्चा करें। (9)
- (ख) संक्षिप्त टिप्पणी लिखें: (i) अग्रिम निर्णय (ii) कर चोरी (9)

2. (क) अंतर्राष्ट्रीय दोहरे कराधान को कम करने के लिए देशों द्वारा अपनाए गए विभिन्न तरीकों पर चर्चा करें। (18)

या

- (क) 'स्थायी प्रतिष्ठान' शब्द की व्याख्या करें और दोहरे कराधान से बचाव समझौतों द्वारा शासित होने पर इसके महत्व का परीक्षण करें। (9)